




भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY



सं. 396]
No. 396]

नई दिल्ली, मंगलवार, अगस्त 27, 2002/भाद्र 5, 1924
NEW DELHI, TUESDAY, AUGUST 27, 2002/BHADRA 5, 1924

गृह मंत्रालय
अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 अगस्त, 2002

सा.का.नि. 599(अ).—केन्द्रीय सरकार, भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल अधिनियम, 1992 (1992 का 35) की धारा 156 की उपधारा (2) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल, फोलोवर्स काडर (समूह 'ग' पद) भर्ती नियम, 1999 को जहाँ तक उनका संबंध कॉन्स्टेबल (भिक्षी और सफाईवाला) के पद से है और उन बातों के सिवाय अधिकांश करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, गृह मंत्रालय, भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल में फोलोवर्स-अकुशल (समूह 'घ' पद) के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. (1) संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ : इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल फोलोवर्स-अकुशल (समूह 'घ' पद) भर्ती नियम, 2002 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पद संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान : उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनके वेतनमान वे होंगे, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ (2) से स्तम्भ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. भर्ती की पद्धति, आयु सीमा और अन्य अर्हताएं आदि : उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ (5) से स्तम्भ (14) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हता : वह व्यक्ति,—

(क) जिम्ने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है; या

(ख) जिम्ने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसी व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति : जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह, उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों को बाधत आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति : इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वर्तमान	चयन-सह-ज्येष्ठता या योग्यता के आधार पर चयन अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा ।	सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अधीन अनुज्ञेय है या नहीं।
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

कानून की अकुशल

न. नं.

95*

साधारण केन्द्रीय सेवा 2550-55-2660-

समूह 'घ' अराजपत्रित 60-3200/-रु०

(अन्तःसंचिनीय)

लागू नहीं होता

18 से 25 के बीच

(केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 5 वर्ष तक शिक्षित की जा सकती है।)

कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है ।

टिप्पण — आयु सीमा अस्थापित करने के लिए निष्पादित तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अतिम तारीख होगी न कि वह अतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख, खण्ड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा दार्जीलिंग के पामी उपखण्ड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।

रोजगार कार्यालयों के माध्यम से की जाने वाली भर्ती की दशा में, आयुसीमा अस्थापित करने के लिए निष्पादित तारीख वह अतिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालयों से नाम भेजने के लिए कहा गया है ।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं ।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं ।	परिवर्षा की अवधि, यदि कोई हो ।
(8)	(9)	(10)
1. किसी मान्यता प्राप्त विद्यालय से 8वीं कक्षा उत्तीर्ण ।	लागू नहीं होता ।	दो वर्ष

भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियाँ द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रविष्टता ।

(11)

(12)

सीधी भर्ती द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा ।

प्रतिनियुक्ति द्वारा :-

ऐसे व्यक्ति जो केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकार विभाग/संगठन के अधीन समतुल्य या सदृश पद धारण किए हुए हैं और जिन्हें संबंधित क्षेत्र में अनुभव है ।

प्रतिनियुक्ति (जिसके अन्तर्गत अल्पकालिक सविदा भी है) की अवधि जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य कास्टा ग्राह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी ।

प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 58 वर्ष से अधिक नहीं होगी ।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी सरचना ।
भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा ।

(13)

(14)

पुष्टि के लिए समूह 'घ' विभागीय प्रोन्नति समिति, जिसमें निम्नलिखित होंगे :- संघ लोक सेवा आयोग के कार्यक्षेत्र से छूट प्राप्त है ।

1. कमांडेंट, भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल - अध्यक्ष
2. उप-कमांडेंट, भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल - सदस्य
3. सहायक कमांडेंट, भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल - सदस्य

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

सफाई कर्मचारी 500*	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'घ' अराजपत्रित (अनुसूचित)	2550-55-2660-60-3200/-रु०	लागू नहीं होता	18 से 25 के बीच	(केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 5 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है)	लागू नहीं होता
--------------------	--	---------------------------	----------------	-----------------	---	----------------

* कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है ।

टिप्पण :- आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी । न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख छण्ड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्पा जिले के पॉली उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है ।

रोजगार कार्यालयों के माध्यम से की जाने वाली भर्ती की दशा में, आयुसीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालयों से नाम भेजने के लिए कहा गया है ।

(8)	(9)	(10)
किसी मान्यता प्राप्त विद्यालय/संस्थान से 8वीं कक्षा उत्तीर्ण ।	लागू नहीं होता ।	दो वर्ष
(11)	(12)	
सीधी भर्ती द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा ।	प्रतिनियुक्ति द्वारा :- ऐसे व्यक्ति जो केन्द्रीय/राज्य सरकार के विभाग/संगठन के अधीन समतुल्य या सदृश पद धारण किए हुए हैं और संबंधित क्षेत्र में अनुभव रखते हैं ।	
	प्रतिनियुक्ति (जिसके अन्तर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य कांडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी । प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 58 वर्ष से अधिक नहीं होगी ।	
(13)	(14)	
पुष्टि के लिए समूह 'घ' विभागीय प्रोन्नति समिति, जिसमें निम्नलिखित होंगे :-	संघ लोक सेवा आयोग के कार्यक्षेत्र से छूट प्राप्त है ।	
1. कमांडेंट, भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल - अध्यक्ष		
2. उप-कमांडेंट, भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल - सदस्य		
3. सहायक कमांडेंट, भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल - सदस्य		

[फा.सं. I-12011/4/2001-संगठन (कार्मिक-I)]

श्याम जिंदल, उप सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th August, 2002

G.S.R. 599(E).—In exercise of the powers conferred by clause (b) of Sub-section (2) of Section 156 of the Indo-Tibetan Border Police Force Act, 1992 (35 of 1992) and in supersession of the Indo-Tibetan Border Police Force, Followers Cadre (Group 'C' posts) Recruitment Rules, 1999, in so far as they relate to the post of Constable (Water Carrier and Safaiwala), except as respects things done or omitted to be done, the Central Government hereby makes the following rules regarding the method of recruitment to the posts of Followers—Un-Skilled (Group 'D' posts) in the Indo-Tibetan Border Police Force, namely:—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Indo-Tibetan Border Police Force, Followers-Un-Skilled (Group 'D' posts) Recruitment Rules, 2002

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of posts, classification and scale of pay.—The number of the said posts, their classification and the scales of pay attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age limit and other qualifications, etc.—~~The method of recruitment to the said posts, age limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (14) of the said Schedule.~~

4. Disqualification.—No person,—

- (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
- (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person, shall be eligible for appointment to any of the said posts :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order for reasons to be recorded in writing relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, other Backward Classes, Ex-servicemen and other special categories of persons, in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of the Post	Number of the Posts	Classification	Scale of Pay	Whether by selection cum-seniority or selection by merit or non-selection post
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Followers - Un-Skilled				
1. Water-Carrier	495*	General Central Service, Group 'D', Non-Gazetted, (Non-Ministerial)	Rs.2550-55-2660-60-3200	Not applicable
*Subject to variation dependent on workload.				
Age limit for direct recruitments.				Whether benefit of added years of service admissible under rule 30 of the Central Civil Service (Pension) Rules, 1972.
(6)				(7)
Between 18 to 25 years (Relaxable for Government servant upto 5 years in accordance with the instructions or orders issued by Central Government).				Not applicable
<p>Note 1:- The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates except for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman Nicobar Islands and Lakshadweep).</p> <p>Note 2:- In the case of recruitment made through the Employment Exchange, the crucial date for determining the age limit shall be the last date upto which the Employment Exchange is asked to submit the name.</p>				

Educational and other qualifications required for direct recruits.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotion.	Period of probation if any.
(8)	(9)	(10)
8th Class pass from a recognised School/Institute.	Not applicable.	Two years
Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the posts to be filled by various methods.	In case of recruitment by promotion/deputation/absorption the grade from which promotion/deputation/absorption to be made.	
(11)	(12)	
By direct recruitment failing which by deputation.	<p>By deputation :-</p> <p>Persons holding equivalent or analogous posts under Central/State Government department/organisation having experience in the respective field.</p> <p>(Period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceeding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall not ordinarily exceed three years). The maximum age limit for appointment by deputation shall be not exceeding 56 years as on the closing date of receipt of application.</p>	

If a Departmental Promotion Committee exists what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment rules.
--	--

(13)

(14)

Group 'D' Departmental Promotion Committee for confirmation consisting of :-

Exempted from the Purview of the Union Public Service Commission consultation.

- (i) Commandant, Indo-Tibetan Border Police - Chairman
- (ii) Deputy Commandant, Indo-Tibetan Border Police - Member
- (iii) Assistant Commandant, Indo-Tibetan Border Police - Member

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2. Safalkaramchari	500*	General Central Service, Group 'D', Non-Gazetted, (Non-Ministerial)	Rs.2550-55-2680-80-3200	Not applicable

*Subject to variation dependent on workload.

(6)

(7)

Between 18 to 25 years (Relaxable for Government servant upto 5 years in accordance with the instructions or orders issued by Central Government).

Not applicable

Note 1 :- The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates except for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangri Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman Nicobar Islands and Lakshadweep).

Note 2 :- In the case of recruitment made through the Employment Exchange, the crucial date for determining the age limit shall be the last date upto which the Employment Exchange is asked to submit the name.

(8)	9	10
8th Class pass from a recognised School/Institute.	Not applicable.	Two years
11	12	

By direct recruitment failing which by deputation.

By deputation :-

Persons holding equivalent or analogous posts under Central/State Government department/organisation having experience in the respective field.

(Period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceeding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall not ordinarily exceed three years). The maximum age limit for appointment by deputation shall be not exceeding 56 years as on the closing date of receipt of application.

13

14

Group 'D' Departmental Promotion Committee for confirmation
consisting of :-

Exempted from the Purview
of the Union Public Service
Commission consultation.

- (i) Commandant, Indo-Tibetan Border Police -Chairman
- (ii) Deputy Commandant, Indo-Tibetan Border Police -Member
- (iii) Assistant Commandant, Indo-Tibetan Border Police - Member

[F. No. I-12011/4/2001-Org(Pers-I)]
SHYAM JINDAL, Dy. Secy.

